



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 कार्तिक 1946 (श0)  
(सं0 पटना 1099) पटना, वृहस्पतिवार, 21 नवम्बर 2024

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2024

एस0 ओ0-486, दिनांक-21 नवम्बर, 2024—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तम्भ-02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 24	139.7	4.63X4.93X2.88	9183.68
फरवरी, 24	139.2	4.63X4.93X2.88	9150.81
मार्च, 24	137.5	4.63X4.93X2.88	9039.05
अप्रैल, 24	138.4	4.63X4.93X2.88	9098.22
मई, 24	139.1	4.63X4.93X2.88	9144.23
जून, 24	138.8	4.63X4.93X2.88	9124.51
योग :-54740.5			

वर्ष 2024 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी से जून, 2024 का औसत-  $54740.5 \div 6 = 9123.41$

## अनुसूची- I (ब)

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.04.2024 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	1. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने का कार्य 2. बीड़ी निर्माण 3. ईंट निर्माण 4. हेयर कटिंग शैलून 5. लादने एवं उतारने के कार्यों 6. वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य 7. असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टैपुल धागों से निर्माण सहित सिल्क उद्योग 8. मिट्टी काटने के कार्यों 9. चाय बगान 10. लाह निर्माण 11. पावरलूम इंडस्ट्रीज (बिजली करघा) 12. केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने ।	अधिसूचना संख्या-1495 दिनांक-14.03.2024 गजट सं०-267 दिनांक-15.03.2024	12 नियोजन

क्र० सं०	कामागारों की कोटि	दिनांक-01-09-2022+ 01.10.2022+01.04.2023+01.10.2023+ 01.04.2024 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2024 से प्रभावी होगी	01.10.2024 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
<b>1. पत्थर तोड़ने अथवा पत्थर पीसने के कार्यों : - (सामान्य कार्य)</b>				
1.	अकुशल -	366.00+7.00+15.00+7.00+410=397.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल-	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00=426.00	2.00	428.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00=519.00	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00=634.00	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	10478.00+210.00+419.00+210.00+419=11736.00	44.00	11780.00 प्रतिदिन
<b>I. खदान से निकालना एवं बैल गाड़ी से ढोना-(प्रति 100 घनफीट)</b>				
(क)	1/4 मील के अन्दर और वहां तक	794.00+16.00+32.00+16.00+32.00=890.00	3.00	893.00 प्रतिदिन
(ख)	प्रत्येक 1/4 मील के उपर ढोने के लिए।	182.00+4.00+7.00+4.00+ 7.00=204.00	1.00	205.00 प्रतिदिन
II.	माइनिंग ट्रौली तोड़ने और परिवहन ट्रौली द्वारा। (प्रति 25 घनफीट कटाव)	197.00+4.00+8.00+4.00+ 8.00+=221.00	1.00	222.00 प्रतिदिन
III.	वोल्डर्स बेली तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)	197.00+4.00+8.00+4.00+8.00=221.00	1.00	222.00 प्रतिदिन
<b>IV. बोल्डर्स ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 100 घनफीट)</b>				
(क)	2" x 3"	413.00+8.00+17.00+8.00+ 17.00=463.00	2.00	465.00

(ख)	2" x 2½"	518.00+10.00+21.00+10.00+21.00=580.00	2.00	582.00
(ग)	1½" x 2"	616.00+12.00+25.00+12.00+25.00=690.00	3.00	693.00
(घ)	1"	1017.00+20.00+41.00+20.00+41.00=1139.00	4.00	1143.00
V.	निज तौलाई से ब्लास्ट तोड़ने वाला (प्रति 5 फीट का बक्सा)	67.00+1.00+3.00+1.00+3.00=75.00	0.28	75.28
VI.	चिप्स तोड़ने वाला (प्रति घनफीट)			
(क)	हाथ द्वारा बनाई गई ¾" डाउन छरी।	33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=37.32	0.11	37.43
(ख)	हाथ द्वारा बनाई गई 1" डाउन छरी।	33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=37.32	0.11	37.43
VII.	मिट्टी काटने वाला—			
(क)	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00=410.00	2.00	412 प्रतिदिन
(ख)	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00=410.00	2.00	412 प्रतिदिन
(ग)	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00=410.00	2.00	412 प्रतिदिन
नोट:—महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेंगे।				
VIII.	वोरर्स या ड्रीलर्स प्रति घनफीट	49.00+0.98+2.00+1.00+2.00 =53.00	2.00	55.20 प्रतिदिन
IX.	माईन्स (एक चौथाई मिल के अन्दर माथे से वोरर्स ढोना) प्रति 25 घनफीट	239.00+5.00+10.00+5.00+10.00=270.00	1.00	271.00 प्रतिदिन
X.	बैगन लादने वाला (500 घनफीट के ब्रोडज का पूरा बैगन) बैगन की दुलाई।	658.00+13.00+26.00+13.00+26.00=736.00	3.00	739.00 प्रतिदिन

XI.	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट) प्रति 100 पीस के लिए			
(क)	ब्रेकिंग साईज 9" x 6" x 4"प्रति 100 पीसेज	814.00+16.00+33.00+16.00+33.00=912.00	3.00	915
(ख)	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट की पालिश करना)। प्रति 100 पीसेज	449.00+9.00+18.00+9.00+ 18.00=503.00	1.00	504
(ग)	स्टोन सेट (पत्थर की ईंट की 3 से 4 मील तक की दूरी से कटिंग एवं दुलाई)। 3 प्रति 100 पीसेज	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00=410.00	2.00	412
2.	बीड़ी निर्माण—(सामान्य कार्य)			
1	अकुशल —	366.00+7.00+15.00+7.00+ 15.00=410.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00=426.00	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00=519.00	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00=634.00	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00 = 11736.00	44.00	11780.00 प्रतिदिन
खण्ड कार्य —				
I.	प्रति हजार बीड़ी किन्तु यदि श्रमिक को इस दर से कमाई किसी भी दिन 43.00 रु० से कम हो तो इस श्रमिक के परिशिष्ट में बतायी गई शर्तों के अनुसार उस दिन के लिए कम से कम 36.00 रु० का भुगतान किया जायेगा।	354.00+7.00+14.00+7.00+14.00= 396.00	1.00	397
(क)	लेबुल लगाना (एकल) प्रति लाख बीड़ी—	449.00+9.00+18.00+9.00+2.00+18.00=503.00	2.00	505
(ख)	लेबुल लगाना (दोहरा) प्रति लाख बीड़ी—	466.00+9.00+19.00+9.00+19.00=522.00	2.00	524

II.	सेकाई कार्य—			
(क)	तंदुर के सिवाय किसी अन्य तरीके से सेकाई कार्य मेंनियोजित कर्मचारी प्रति लाख बीड़ी—	216.00+4.00+9.00+4.00+0.42+9.00=242.00	1.00	243.00
(ख)	तंदुर द्वारा सेकाई—प्रति लाख बीड़ी—	220.00+4.00+9.00+4.00+9.00=246.00	1.00	247
(ग)	गांठ बंधाई (टोकरी गांठ बंधाई) प्रति लाख बीड़ी—	225.00+5.00+9.00+5.00+9.00=253.00	1.00	254
3.	ईंट निर्माण नियोजन —			
I.	सामान्य कार्य—			
1	अकुशल —	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00=426.00	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00=519.00	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00=634.00	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	10478.00+210.00+419.00+210.00+419.00=11736.00	44.00	11780.00 प्रतिदिन
II.	खण्ड कार्य —			
(i)	ब्रिक मोल्डर (मिट्टी काटना, मिट्टी सानना, मिट्टी में पानी पटाना और परिया पर मिट्टी लाना सहित) प्रति हजार ईंट—	535.00+11.00+21.00+11.00+21.00=599.00	2.00	601 प्रतिदिन
(ii)	भट्ठा में ईंट चढ़ाना / उतारना (प्रति हजार ईंट—) एवं अकुशल मजदूर (प्रतिदिन)	366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00	2.00	412 प्रतिदिन
(iii)	मिस्त्री	10111.00+202.00+404.00+202.00+ 404.00 = 11323.00	43.00	11366 प्रतिमाह
III.	चिमनी में			
(i)	ब्रिक मोल्डर (मिट्टी काटना,	472.00+9.00+19.00+9.00+19.00=528.00	2.00	530 प्रतिदिन

	मिट्टी सानना, मिट्टी में पानी पटाना औरपरिया या पगमिल पर मिट्टी लाना सहित)प्रति हजार ईट—			
(ii)	ईट चढ़ाना/ उतारना (प्रति हजार ईट—) एवं अकुशल मजदूर (प्रतिदिन)	$366.00+7.00+15.00+7.00+15.00=410.00$	2.00	412 प्रतिदिन
(iii)	फायरमैन—	$11238.00+225.00+450.00+225.00+450.00$ $=12588.00$	47.00	12635 प्रतिमाह
(iv)	कोलमैन/ चौकीदार/ फायर खलासी एवं रवलिसमैन	$9478.00+190.00+379.00+190.00+379.00$ $= 10616.00$	40.00	10656 प्रतिमाह
(v)	मेट/ओभर सुपरवाईजर एवं मिस्त्री—	$10857.00+217.00+434.00+217.00+ 434.00$ $=12159.00$	46.00	12205 प्रतिमाह
(vi)	मुंशी—	$11462.00+229.00+458.00+229.00+458.00$ $=12836.00$	48.00	12884 प्रतिमाह
4.	हेयर कटिंग सैलून ( सामान्य कार्य) —			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00$ $=11361.00$	44.00	11781.00 प्रतिदिन
खंड कार्य —				
(i)	प्रति बाल कटाई—	$51.00+1.00+2.00+1.00+0.21=55.21$	0.21	57.21
(ii)	प्रति दाढ़ी बनाई—	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.07=18.41$	0.07	19.09
(iii)	प्रति बाल काटन एवं दाढ़ी बनाई—	$63.00+1.00+3.00+1.00+0.26=68.26$	0.26	71.26
(iv)	प्रति सर मुंडन—	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20=42.80$	0.15	42.67
(v)	बच्चे-बच्चियों प्रति बाल कटाई—	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.32
(vi)	प्रति सर मालिश—	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05= 14.09$	0.05	14.83
(vii)	प्रति शैम्पू	$30.00+0.60+1.20+1.00+0.12=32.92$	0.12	34.32

	करना—			
(viii)	प्रति बाल रंगाई—	$148.00+3.00+6.00+3.00+0.62=160.62$	0.62	166.62
5.	लादने एवं उतारने के कार्यों के नियोजन—			
	<u>सामान्य कार्य—</u>			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11361.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
<b>खण्ड कार्य:—</b>				
(1)	बोरा, गुड़, चक्की, खाद, कपड़े की गांठ, जूट, रुई, आदि लादने या उतारने टीन या किरासन तेल का ड्राम, सरसों तेल, नारियल तेल और अन्य तेल, डालडा छोवा, पेन्ट्स, तार आदि या कोई अन्य भार (लोड) इस अनुसूचि में उल्लिखित नहीं है। गोदाम या दूकान या सामान रखने का स्थान (स्टोरेजलेश से) से रेलवे वैगन, ट्रक, बैलगाड़ी आदि या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और ले आने प्रत्येक 200 मीटर या उसके खंड	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन

	भार (लोड) ले जाने के लिए प्रति भार (लोड) का— प्रतिदिन			
I	20 किलो से कम—	$6.00+0.12+0.24+0.12+0.02=6.50$	0.02	6.74
II	20 किलो से 40 किलो तक	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.64$	0.03	8.99
III	41 किलो से 65 किलो तक	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.04=11.40$	0.04	11.64
IV	66 किलो से 85 किलो तक—	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.31$	0.05	14.83
V	86 किलो से 100 किलो तक	$18.00+0.36+0.72+0.36+0.07=19.43$	0.07	20.15
VI	101 किलो से और उससे अधिक(प्रति दो किलो भार के लिए) (101 किलो ग्राम के उपर)	$(19.26+3.09)+(0.38+0.06)+(0.77+0.12)+$ $(0.38+0.06)= (20.79+3.33)$	$(0.08+0.01)$	$(21.64+3.46)$
(2)	बोरा को भरना या फिर से भरना या तौलना या सिलाई करना या टीन ड्राम को वैल्लिंग करना या बोरा, टीन, ड्राम और अन्य किसी भार (लोड) को एक ही जगह ठीक से रखना—	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
(i)	बोरा, टीन, ड्राम को भरना या फिर से भरना या ठीक करना और अन्य कोई भार—भार (लोड) का —			
(क)	40 किलो तक—	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20=5.60$	0.02	5.62
(ख)	41 किलो से 65 किलो तक—	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.67$	0.03	8.99
(ग)	66 किलो से 100 किलो तक—	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.04=11.24$	0.04	11.64



(घ)	101 किलो और उससे अधिक— प्रति दस किलो ग्राम भार के लिए (101 किलोग्राम से उपर)–	$(19.14+4.31)+(0.38+0.08)+(0.77+0.17)+(0.38+.08)=(20.67+4.64)(0.08+0.01)$	(0.00+0.00)	(21.44+4.81)
(ii)	एक बोरा की सिलाई करना या एक टीन या एक ड्राम को बेल्डिंग करना या 10 किलो से अधिक	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20=5.60$	0.02	5.62
(3)	बांस, लकड़ी का पोल, लकड़ी का कुन्दा, जलावन की लकड़ी और ईख लादना या उतारना–	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00+2.00=397.00$	2.00	412
<b>(i) बांस और लकड़ी का पोल लादना–</b>				
(क)	प्रति रेलवे वैगन–	$737.00+15.00+29.00+15.00+3.00=799.00$	3.00	828.00
(ख)	प्रति ट्रक–	$350.00+7.00+14.00+7.00+1.00=378.00$	1.00	393.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी–	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$71.00+1.00+3.00+1.00+0.29=76.29$	0.29	79.29
<b>(ii) लकड़ी का कुन्दा एवं जलावन को लादना–</b>				
(क)	प्रति रेलवे वैगन–	$737.00+15.00+29.00+15.00+3.00=799.00$	3.00	828.00
(ख)	प्रति ट्रक–	$350.00+7.00+14.00+7.00+1.00=379.00$	1.00	393.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी–	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42+0.29=109.29$	0.29	113.29
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$71.00+1.00+3.00+1.00+0.29=76.29$	0.29	79.29
<b>(iii) बांस, लकड़ी का पोल, लकड़ी कुन्दा एवं जलावन की लकड़ी उतारना–</b>				
(क)	प्रति रेलवे वैगन–	$239.00+5.00+10.00+5.00+1.00=260.00$	1.00	270.00
(ख)	प्रति ट्रक–	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी–	$35.00+0.70+1.40+1.00+0.14=38.14$	0.14	39.54
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.08=22.50$	0.08	23.34
(iv)	ईख लादना एवं उतारना प्रति क्विन्टल–	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.26$	0.05	14.83
(4)	सीमेन्ट या मिट्टी या शीशे से निर्मित ईट,	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412

	फायरब्रिक्स टाईल्स, फेगाईल्सवेयर्स, स्टोन पाईल्डर्स वाली और कोयला को लादना और उतारना—			
<b>(i)</b>	सीमेन्ट या मिट्टी या शीशे से निर्मित ईंट, फायरब्रिक्स टाईल्स, फेगाईल्सवेयर्स को लादना एवं उतारना :-			
(क)	प्रति रेलवे वैगन—	$2015.00+40.00+81.00+40.00+81.00=2184.46$	8.46	2192.92
(ख)	प्रति ट्रक—	$875.00+18.00+35.00+18.00+3.67=949.67$	3.67	985.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$253.00+5.00+10.00+5.00+1.00=274.00$	1.00	284.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$177.00+4.00+7.00+4.00+1.00=193.00$	1.00	200.00
<b>(ii)</b>	ईंट लादना —			
(क)	प्रति रेलवे वैगन—	$1570.00+31.00+63.00+31.00+7.00=1702.00$	7.00	1765.00
(ख)	प्रति ट्रक—	$737.00+15.00+29.00+15.00+3.00=796.00$	3.00	828.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$213.00+4.00+9.00+4.00+0.89=230.89$	0.89	239.89
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$155.00+3.00+6.00+3.00+0.65=167.65$	0.65	174.65
<b>(iii)</b>	ईंट उतारना —			
(क)	प्रति रेलवे वैगन—	$1033.00+21.00+41.00+21.00+4.00=1117.00$	4.00	1161.00
(ख)	प्रति ट्रक—	$499.00+10.00+20.00+10.00+2.00=541.00$	2.00	563.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$155.00+3.00+6.00+3.00+6.00=173.00$	0.65	174.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
<b>(iv)</b>	स्टोन चीप्स एवं चाली को लादना एवं उतारना—प्रति 100 सी०एफ०टी०			
(क)	लादना—	$130.00+3.00+5.00+3.00+5.00=146.00$	0.54	146.54
(ख)	उतारना—	$89.00+2.00+4.00+2.00+0.37=97.37$	0.37	101.37
<b>(v)</b>	स्टोन बोल्डर्स एवं ब्लास्ट को लादना एवं उतारना— प्रति 100 सी०एफ०टी०			
(क)	लादना—	$123.00+2.00+5.00+2.00+0.51=132.51$	0.51	137.51
(ख)	उतारना—	$89.00+2.00+4.00+2.00+0.37=97.37$	0.37	101.37
(5)	आयरनरोड्स, जी०सीट्स, आयरन पाईप्स, हीयूम पाईप मशीनरीज इक्वीपमेंट्स एवं अन्य हार्ड वेयर्स को लादना एवं उतारना—	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=395.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
<b>(i)</b>	लादना—			
(क)	प्रति रेलवे वैगन—	$1764.00+35.00+71.00+35.00+7.00=1912.00$	7.00	1983.00
(ख)	प्रति टायर वाली गाड़ी ट्रक—	$814.00+16.00+33.00+16.00+3.00=882.00$	3.00	915.00

(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$237.00+5.00+9.00+5.00+1.00=257.00$	1.00	266.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$200.00+4.00+8.00+4.00+1.00=217.00$	1.00	225.00
<b>(ii)</b>	<b>उतारना—</b>			
(क)	प्रति रेलवे वैगन—	$1190.00+24.00+48.00+24.00+5.00=1291.00$	5.00	1339.00
(ख)	प्रति ट्रक—	$601.00+12.00+24.00+12.00+3.00=652.00$	3.00	676.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$182.00+4.00+7.00+4.00+1.00=197.00$	1.00	205.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$122.00+2.00+5.00+2.00+1.00=132.00$	1.00	137.00
(6)	कोयला को लादना एवं उतारना—	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00
<b>(i)</b>	<b>लादना—</b>			
(क)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता)	$712.00+14.00+28.00+14.00+3.00=771.00$	3.00	799.00
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी0 एफ0 टी0—)	$443.00+9.00+18.00+9.00+2.00=481.00$	2.00	499.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$122.00+2.00+5.00+2.00+1.00=132.00$	1.00	137.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42
<b>(ii)</b>	<b>उतारना—</b>			
(क)	प्रति रेलवे वैगन 22 टन की क्षमता वाला—	$483.00+10.00+19.00+10.00+2.00=524.00$	2.00	543.00
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी0एफ0टी0—)	$279.00+6.00+11.00+6.00+1.00=303.00$	1.00	314.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$66.00+1.00+3.00+1.00+0.29=71.29$	0.29	74.29
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$41.00+0.82+1.64+1.00+0.17=44.00$	0.17	45.81
(7)	चूना, बालू, क्ले (clay) एवं मिट्टी को लादना एवं उतारना—	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00
<b>(i)</b>	<b>लादना—</b>			
(क)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला—)	$557.00+11.00+22.00+11.00+2.00=603.00$	2.00	625.00
(ख)	प्रति ट्रक (200 सी0एफ0 टी0—)	$324.00+6.00+13.00+6.00+1.00=350.00$	1.00	363.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$159.00+3.00+6.00+3.00+1.00=172.00$	1.00	170.00
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$122.00+2.00+5.00+2.00+1.00=132.00$	1.00	137.00
<b>(ii)</b>	<b>उतारना—</b>			
(क)	प्रति रेलवे वैगन (22 टन की क्षमता वाला—)	$393.00+8.00+16.00+8.00+2.00=425.00$	2.00	443.00

(ख)	प्रति ट्रक (200 सी0एफ0टी0—)	$173.00+3.00+7.00+3.00+1.00=187.00$	1.00	194.00
(ग)	प्रति टायर वाली गाड़ी—	$90.00+2.00+4.00+2.00+0.37=98.37$	0.37	102.37
(घ)	प्रति बैलगाड़ी	$65.00+1.00+3.00+1.00+0.27=70.27$	0.27	73.27
(8)	प्रति सीमेन्ट बोड़ा को लादना एवं उतारना—	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.31$	0.05	14.83
6.	<b>वन का संचालन तथा लकड़ी बनाने के कार्य— (सामान्य कार्य)</b>			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44=11361.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
<b>खण्ड कार्य —</b>				
(क)	विभिन्न प्रकार के लकड़ी के कुन्दे (लौंग काटने वाला गिराना फालिंग, डिमार्किंग और कौपिस फोरेस्ट में लादने के स्थान में जमा कराना(पोल) सेलेक्स सर्किल में वृक्ष काटकर गिराना लोजिंग(टोना 4"x5"आदि).. प्रति क्यूबिक मीटर	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.67$	0.03	8.99
(ख)	कनवरसन ऑफ ट्राम लाईन ऐट फेंसिंग पोस्ट— प्रति टुकड़ा	$11.00+0.22+0.44+0.22+0.04=12.26$	0.04	12.70
(ग)	कटिंग,कनवरसन इन्क्लूडिंगस्ट्रेंकिंग ऐट साईट आफ फायरउड (साईज क्यूबिक मीटर)—	$109.00+2.00+4.00+2.00+0.45=117.45$	0.45	121.45
(घ)	<b>बांस काटना एवं एकत्रित करना—</b>			
(i)	लगा—प्रति 100	$314.00+6.00+13.00+6.00+1.00=340.00$	1.00	353.00

(ii)	टोना-प्रति 100	$252.00+5.00+10.00+5.00+1.00=273.00$	1.00	283.00
(iii)	सरही- प्रति 100	$109.00+2.00+4.00+2.00+0.45=117.45$	0.45	121.45
(iv)	चारकोल मैन्यूफैक्चरिंग- प्रति 35 किलोग्राम का बैग	$79.00+2.00+3.00+2.00+0.33=86.33$	0.33	89.33
(v)	फीडरग्रास, थैच ग्रास या सेवाल ग्रास- प्रति 35 किलोग्राम बैगका -	$79.00+2.00+3.00+2.00+0.33=86.33$	0.33	89.33
(vi)	साल सीड एवं बोनहिनिया पत्ता जमा करना- प्रति किलोग्राम-	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.8=22.50$	0.08	22.58
7.	असली रेशम, कृत्रिम रेशम तथा स्टेपुल धागों से निर्माण सहित			
1	अकुशल -	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल-	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00=11361.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
खण्ड कार्य -				
(क)	पावरलूम वीभर- के लिए और प्रतिमीटर एरीचेक उत्कृष्ट कपड़े के लिए-तथा	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=22.50$	0.08	23.58
	अन्य प्रति मीटर सादे कपड़े-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=18.41$	0.07	19.11
(ख)	हैंडलूम वीभर- प्रति मीटर सादे कपड़े के लिए-	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.32

	प्रति मीटर एरीचेक तथा अन्य उत्कृष्ट कपड़े के लिए—	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.64=45.92$	0.15	42.67
	प्रति मीटर तसर, मलवरी, मुंगा कपड़े के लिए—	$41.00+0.82+1.64+1.00+0.17=44.17$	0.17	45.81
(ग) (i) (क)	पिन वाईन्डर पावरलूम— प्रति किलोग्राम हाथ से तैयार कपड़े	$21.00+0.42+0.84+0.84=23.52$	0.08	23.34
(ख)	प्रति किलोग्राम धोने से तैयार कपड़े	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=19.04$	0.07	19.11
(ii)	हैंडलूम—प्रति किलोग्राम	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=37.30$	0.13	37.43
(घ)	बोविन बाईन्डर—			
(i)	पावरलूम—प्रति किलोग्राम हाथ से तैयार कपड़े	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.07+0.68=19.04$	0.07	19.11
(ii)	हैंडलूम—प्रति किलोग्राम	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=37.30$	0.13	37.43
(ड.)	कटाई—छटाई			
	स्टेपुल (प्रति थान 12 मीटर का सिल्क—	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=19.04$	0.07	19.11
8.	मिट्टी काटने का कार्य—			
(क)	मुलायम मिट्टी के लिए प्रति 90 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
(ख)	कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 75 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
(ग)	अति कड़ी मिट्टी के लिए प्रति 60 घनफीट	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
नोट:—महिला कामगारों के लिए 15 प्रतिशत कम मिट्टी काटने का निर्णय, परन्तु मजदूरी समान रूप से पायेंगे।				
9.	चाय बगान का नियोजन— सामान्य कार्य —			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन

3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44$ $= 11361.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
<b>खण्ड कार्य —</b>				
(क)	तोड़ने वाले 1 किलो ग्राम हरी पत्ती तोड़ने के लिए—	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68= 19.04$	0.07	19.11
(ख)	कुदाली से खोदने में लगे व्यक्ति— 0.133 एकड़ जमीन में 40 नाल तैयार करने के लिए—	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22 =57.22$	0.22	59.22
(ग)	मिराई और विसाखन (फोरकिंग में लगे व्यक्ति) प्रति 100 चाय झाड़ी (टी बुश) पर—	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22=57.22$	0.22	59.22
10.	<b>लाह निर्माण (सामान्य कार्य )—</b>			
1	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44.00$ $=11361.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
<b>खण्ड कार्य —</b>				
(क)	कारीगर— प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए—	$221.00+4.00+9.00+4.00+1.00 =239.00$	1.00	248.00
(ख)	वेलवईया— प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए—	$190.00+4.00+8.00+4.00+1.00+0.48 =206.48$	0.48	214.48
(ग)	फरवईया— प्रति 40 किलो सीड लाह मेलटिंग के लिए—	$115.00+2.00+5.00+2.00+0.48 =124.48$	1.00	129.48

(घ)	कामीन एवं घोधियाहीन— प्रति 40 किलो सीड लाह की भूसी, मुलम्मा एवं सैंड को निकालने एवं धोने लिए —	$57.00+1.00+2.00+1.00+0.23=61.23$	0.23	63.23
(ङ.)	करहिया, रंगकरहिया, घसंदर एवं मैयनदर— प्रति 40 किलोसीड लाह की धोलाई मसीन से धोने के लिए—	$53.00+1.00+2.00+1.00+0.22=57.00$	0.22	59.22
(च)	टेलर (खलिफा)— (1) जब अपना मसीन व्यवहार करे (प्रति भट्ठा) —	$31.00+0.62+1.24+1.00+1.24=35.10$	0.13	35.23
	(2) जब नियोजक का मसीन	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=19.04$	0.07	19.11
(छ)	क्रशर— प्रति 40 किलो स्टीक लाह—	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52=42.8$	0.15	42.95
(ज)	ब्रेकर— प्रति 40 किलो स्टीक लाह—	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=36.96$	0.13	37.09
11.	पावरलूम इन्डस्ट्रीज (बिजली करघा)—			
	सामान्य कार्य —			
1.	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00=11317.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
खण्ड कार्य—				
	पीक—	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	26	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60



	28	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	30	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	32	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	34	$21.00+0.42+0.84+0.46+0.84=23.52$	0.08	23.60
	36	$21.00+0.42+0.84+0.46+1.20=34.00$	0.12	34.12
	40	$21.00+0.42+0.84+0.46+1.20=34.00$	0.12	34.12
	42	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	44	$30.00+0.60+1.00+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	46	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	48	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	50	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52=42.56$	0.15	42.71
	52	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52=42.56$	0.15	42.71
<b>12.</b>	<b>केन्दु पत्ता तोड़ने एवं तैयार करने के नियोजन—</b>			
1.	अकुशल —	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल—	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 प्रतिदिन
5.	लिपिकीय / पर्यवेक्षीय	$10478.00+210.00+419.00+210.00+44=113961.00$	44.00	11780.00 प्रतिदिन
<b>खण्ड कार्य—</b>				
(क)	पत्ता तोड़ना प्रति 50000 पत्ते अथवा 60 पैसा प्रति 50 पत्ते—	$1344.00+27.00+54.00+27.00+6.00=1458.00$	6.00	1512
(ख)	<b>बोरा भरना—</b>			
	प्रति छोटा बोरा—	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	प्रति बड़ा बोरा—	$41.00+0.82+1.64+1.00+1.64=46.10$	0.17	46.27
(ग)	ग्रेड में छोटना और बन्दल बनाना प्रति बिन्डा (5 किलो का)—	$41.00+0.82+1.64+1.00+0.64=46.10$	0.17	46.27

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस विन्दु पर आधारित होगा जिसपर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूचि के स्तंभ -4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस खंड दर पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जुलाई-दिसम्बर, 2023** के औसत के आधार पर **1 अप्रैल, 2024** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य संचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं0-5/एम0डब्ल्यू0-40-18/2021 श्र0सं0-11)  
बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव रंजन,

संयुक्त सचिव।

30 सितम्बर 2024

एस0 ओ0-487, एस0ओ0-486, दिनांक-21 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0-5/एम0डब्लू0-40-18/2021 श्र0सं0-12)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

राजीव रंजन,

संयुक्त सचिव।

***The 30 September, 2024***

S.O. 486, Date The 21<sup>st</sup> November 2024--In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

**Schedule-1 (A)**

Month & Year	Index No Base Year (2016-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960-100)
1	2	3	4
January, 2024	139.7	4.63 X4.93 X2.88	9183.68
February, 2024	139.2	4.63 X4.93 X2.88	9150.81
march, 2024	137.5	4.63 X4.93 X2.88	9039.05
April, 2024	138.4	4.63 X4.93 X2.88	9098.22
May, 2024	139.1	4.63 X4.93 X2.88	9144.23
June, 2024	138.8	4.63 X4.93X2.88	9124.51
<b>Total</b>			<b>54740.5</b>
<b>Second First Yearly Average of the year January to June,2024. <math>54740.5 \div 6 = 9123.41</math></b>			

**SCHEDULE-I (B)**

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2024	Total
1	2	3	4
1	1- Stone Breaking and Stone Crushing Operation 2- Bidi Making Manufacturing 3- Brick Manufactor 4-Hair Cutting Saloon 5- Loading and Unloading 6- Forestry and Timbering Operation 7- Silk Industries including Manufacturing from pure Silk Artificial Silk and other staple Yarn 8- Earth Cutting Operation 9- Tea PLatation10- Lac Manufactory 11- Power Loom Industr 12- Plucking and Processing of Kendu Leave-	<b>Notification No- -1495</b> दिनांक-14.03.2024 <b>Gazette No.-267</b> <b>Date-15.03.2024</b>	<b>12 Employment</b>

**Schedule-II**

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	<b>Stone Breaking &amp; Stone Crushing Operations</b>			
	<b>General Work</b>			
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+410=397.00	2.00	412.00 Perday
2.	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+15.00 =426.00	2.00	428.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+19.00 =519.00	2.00	521.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+23.00 =634.00	2.00	636.00 Perday
5.	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+419 =11736.00	44.00	11780.00 Per Month
	<b>Piece Work</b>			
I.	Mining & Carrying by Bullock Cart-			
(a)	Within up to quarter mile per 100 Cft-	794.00+16.00+32.00+16.00+3.00 =858.00	3.00	893.00Perday
(b)	For every above quarter mile of carrying per 100/- Cft	182.00+4.00+7.00+4.00+1.00=198.00	1.00	205.00Perday
II.	Mining chelly breaking and transport by trolley per tub- of 25ft-	197.00+4.00+8.00+4.00+1.00 =214.00	1.00	222.00Perday
III	Chelly breaker from boulder per 100/- Cft-	197.00+4.00+8.00+4.00+1.00 =214.00	1.00	222.00Perday
IV.	Ballast Breaker from boulder- per 100/-Cft--			
(a)	2"x3"	413.00+8.00+17.00+8.00+2.00 =448.00	2.00	465.00
(b)	2"X2-50"	518.00+10.00+21.00+10.00+2.00 =561.00	2.00	582.00
(c)	1-50"X2"	616.00+12.00+25.00+12.00+3.00 =668.00	3.00	693.00
(d)	1"	1017.00+20.00+41.00+20.00+44.00 =1102.00	4.00	1143.00
V.	Breaking Ballast from telai-Per Box of 5ft-	67.00+1.00+3.00+1.00+0.28 =72.28	0.28	75.28
VI.	<b>Chips Breaker-</b>			
(a)	Hand made chips of 3/4"Dn- per Cft- -	33.00+0.66+1.32+1.00=36.00	0.15	37.47
(b)	Hand made chips of 1" Dn- per Cft- -	33.00+0.66+1.32+1.00+0.11 =36.00	0.11	37.73

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
<b>VII.</b>	<b><u>Earth Cutting -</u></b>			
(a)	For soft earth- per 90 Cft-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412 Perday
(b)	For hard earth per 75 Cft-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412 Perday
(c)	For highly hand earth- per 60 Cft-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412 Perday
<b>Note:- Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will gate equal wage-</b>				
<b>VIII</b>	Borers and Drollers per ft-	49.00+0.98+2.00+1.00+2.00 =53.00	2.00	55.00Perday
<b>IX.</b>	Mines (Including boulders carrying Head load within a quarter mile-) per25 Cft.	239.00+5.00+10.00+5.00+10.00 =269.00	1.00	270.00Perday
<b>X.</b>	Wagon Loaders full head of Board gauges wagon(500 cubic ft-) per Wagon load-	658.00+13.00+26.00+13.00+3.00 =713.00	3.00	739.00Perday
<b>XI.</b>	<b><u>Stone Set (Stone Bricks) Per 100 Pcs.</u></b>			
(a)	Breaking Size (9"x6"x4")	814.00+16.00+33.00+16.00+3.00 =882.00	3.00	915
(b)	Stone Set (Stone Bricks Polishing)	449.00+9.00+18.00+9.00+1.00=486.00	1.00	504
(c)	Stone Set (Stone Bricks Cautting & Transporting) for 3 to 4 mile -	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412
<b>2.</b>	<b><u>Bidi Making Manufacture :-</u></b>			
	<b><u>General Work</u></b>			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical/ Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+44 =11361.00	44.00	11780.00 Per Month
<b><u>Piece Work</u></b>				
<b>I.</b>	Per thousand bidi provided that Where employers earning at this rate is less than Rs- 43- 00 per day he shall	354.00+7.00+14.00+7.00+1.00 =383.00	1.00	397

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
	be paid at least Rs. 36.00 per that day subject to the condition specified in the annexure here to.			
(a)	Libeling (Single) per lakh	449.00+9.00+18.00+9.00+2.00+2.00 =489.00	2.00	505
(b)	Libeling (double) per lakh	466.00+9.00+19.00+9.00+2.00 =505.00	2.00	524
<b>II.</b>	<b>Sekai Work-</b>			
(a)	Employees employed in Sekai by any process Bidi Other than Tandoor. Per Lakh Bidi. other than tandoor- per lakh	216.00+4.00+9.00+4.00+0.42+ 1.00 =233.42	1.00	243
(b)	Sekai by Tandoor per lakh Bidi	220.00+4.00+9.00+4.00+1.00 =238.00	1.00	247
(c)	Packing (Basket packing) per lakh	225.00+5.00+9.00+5.00+1.00 =245.00	1.00	254
<b>3.</b>	<b>Brick Manufactory-</b>			
<b>I</b>	<b>General Work-</b>			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+2.00 =413.00	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+2.00 =502.00	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical/ Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00 +44.00=11317.00	44.00	11780.00 Per Month
<b>II.</b>	<b>Piece Work</b>			
(i)	Brick moulders (inclusive of cutting earth, kneading earth, watering earth, carrying earth to parria) per thousand bricks-	535.00+11.00+21.00+11.00+2.00 =580.00	2.00	601 Perday
(ii)	Loading & unloading of Bricks in Bhattha)	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412Perday

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
	per 1000 bricks & unsilled Labour per day.			
(iii)	Mistri	10111.00+202.00+404.00+202.00 +404.00= 11323.00	43.00	11366Per Month
<b>III.</b>	<b><u>IN CHIMNEYS</u></b>			
(i)	Brick moulder (inclusive of cutting earth, kneading earth, watering earth, and carrying earth to pariah & Pug mill. Per 1000 bricks.	472.00+9.00+19.00+9.00+2.00=511.00	2.00	530 Perday
(ii)	Bricks Loading and Unloading of per 1000 & Unskilled Labour-per day.	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412Perday
(iii)	Fireman	11238.00+225.00+450.00+225.00+47 =12185.00	47.00	12635Per Month
(iv)	Coalman/Chowkid ar/Fire Khalalsi & Rublishman.	9478.00+190.00+379.00+190.00+40.00 =10277.00	40.00	10656Per Month
(v)	Mate/Over Supervisor &Mistry.	10857.00+217.00+434.00+217.00 +46.00=11771.00	46.00	12205Per Month
(vi)	Munshi	11462.00+229.00+458.00+229.00 +48.00=12426.00	48.00	12885Per Month
<b>4.</b>	<b><u>Hair Cutting Saloon -</u></b>			
	<b><u>General Work –</u></b>			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+2.00 =413.00	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+2.00 =502.00	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+ 44.00=11361.00	44.00	11781.00 Per Month
	<b><u>Piece Work</u></b>			
I.	Per Hair Cutting.	51.00+1.00+2.00+1.00+0.21=55.21	0.21	57.21
II.	Per shaving.	17.00+0.34+0.68+0.34+0.07=18.41	0.07	19.09

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
III	Per hair cutting & shaving.	63.00+1.00+3.00+1.00+0.26=68.26	0.26	71.26
IV	Per Sar Mundan	38.00+0.76+1.52+1.00+1.52=42.80	0.15	42.67
V	Per Hair Cutting of Children.	30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00	0.12	34.32
Vi	Per Sar Malish.	13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.26	0.05	14.83
VII	Per Shampoo.	30.00+0.60+1.20+1.00+0.12=33.92	0.12	34.32
VIII	Per hair Dying.	148.00+3.00+6.00+3.00+0.62=160.00	0.62	166.62
<b>5.</b>	<b>Loading &amp; Unloading Operation-</b>			
	<b>General Work-</b>			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+2.00 =413.00	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+ 2.00=11361.00	44.00	11738.00 Per Month
<b>Piece Work</b>				
I-	Loading or UN loading of Bags, Gur Chakkies, Fertilizer bales of cloths, Jute, Cotton etc- tin or drum of Kerosene oil, Mustered Oil, Coconut Oil and other oil, Dalda Malases, Paints tar etc- or any other load, not specified in this schedule from Godown or Shop or storage place to railways wagon, truck, Bullock cart, etc- or from one place to another place and vice -versa for carrying loads every 200 meters or parts there fo per	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00 Perday

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
	load of.			
I	Less than 20 kg-	$6.00+0.12+0.24+0.12+0.02=6.50$	0.02	6.74
II	From 20 to 40 Kg-	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.64$	0.03	8.99
III	From 41 Kg- to 65 Kg-	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.04=11.40$	0.04	11.64
IV	From 66 Kg- to 85 Kg-	$13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.43$	0.05	14.83
V	From 86 Kg- to 100 Kg-	$18.00+0.36+0.72+0.36+0.07=19.43$	0.07	20.15
VI	From 101 Kg- and above (Rupees for every Two Kg-load over 101 kg.)	$(19.26+3.09)+(0.38+0.06)+(0.77+0.12)+(0.38+0.06)= (20.79+3.33)$	$(0.08+0.01)$	$(21.64+3.46)$
(2)	Filling or weighing or welding of this and drums or arranging of Bags , tins , drums and other	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00Perday
(i)	<b>Filling or refilling or arranging of Bags, tins and any other load (per load of) -</b>			
(a)	Up to 40 Kg-	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20=5.60$	0.02	5.62
(b)	From 41 Kg- to 65 Kg-	$8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.67$	0.03	8.99
(c)	From 66 Kg- to 100 Kg-	$10.00+0.20+0.40+0.20+0.04=11.24$	0.04	11.64
(d)	101 Kg- and above (Rupees for every 10 Kg-load over 101 Kg-)	$(19.14+4.31)+(0.38+0.08)+(0.77+0.17)+(0.38+0.08)= (20.67+4.64)(0.08+0.01)$	$(0.00+0.00)$	$(21.44+4.81)$
(ii)	Sewing of Bags of welding of tins or weighing of load above 10Kg- on scale	$5.00+0.10+0.20+0.10+0.20=5.60$	0.02	5.62
(3).	Loading or Unloading of Bamboo, wooden poles, Wooden logs, fuel wood and sugar cane.	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412
(i)	<b>Loading of Bamboo and Wooden Poles:-</b>			
(a)	Per Railway wagon	$2015.00+40.00+81.00+40.00+81.00=2257.00$	8.46	828.00
(b)	Per Truck	$350.00+7.00+14.00+7.00+2.00=378.00$	2.00	393.00
(c)	Per Tyre cart	$101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42$	0.42	113.42



Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
(d)	Per bullock cart	71.00+1.00+3.00+1.00+0.29=76.29	0.29	79.29
(ii)	<b>Loading of wooden logs and fuel woods :-</b>			
(a)	Per railways wagon	737.00+15.00+29.00+15.00+3.00 =799.00	3.00	828.00
(b)	Per truck	350.00+7.00+14.00+7.00+1.00=379.00	1.00	393.00
(c)	Per tyre cart	101.00+2.00+4.00+2.00+0.42+0.29 =109.29	0.29	113.29
(d)	Per bullock cart	71.00+1.00+3.00+1.00+0.29=76.29	0.29	79.29
(iii)	<b>Unloading of Bamboo Wooden poles, wooden logs and wood :-</b>			
(a)	Per railways wagon	239.00+5.00+10.00+5.00+1.00=260.00	1.00	270.00
(b)	Per truck	101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42	0.42	113.42
(c)	Per tyre cart	35.00+0.70+1.40+1.00+0.14=38.14	0.14	39.54
(d)	Per bullock cart	21.00+0.42+0.84+0.42+0.09=22.50	0.08	23.34
(iv)	Loading and Unloading of Sugar Cane Per quintal	13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.26	0.05	14.83
(4)	Loading and Unloading of Bricks, Fire Bricks, tiles, Fragile wares made of cement or clay or glass, Boulders Ballast, chelly and coal-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00 =397.00	2.00	412
(i)	<b>Loading and Unloading of Fire Bricks, tiles, fragils, water made of cement or clay or Glass-</b>			
(a)	Per railways wagon	2015.00+40.00+81.00+40.00+81.00 =2257.46	8.46	2192.92
(b)	Per truck	875.00+18.00+35.00+18.00+3.67 =949.67	3.67	985.00
(c)	Per tyre cart	253.00+5.00+10.00+5.00+1.00=274.00	1.00	284.00
(d)	Per bullock cart	177.00+4.00+7.00+4.00+1.00=193.00	1.00	200.00
(ii)	<b>Loading of Bricks:----</b>			
(a)	Per railways wagon	1570.00+31.00+63.00+31.00+7.00 =1702.00	7.00	1765.00
(b)	Per truck	737.00+15.00+29.00+15.00+3.00 =796.00	3.00	828.00
(c)	Per tyre cart	213.00+4.00+9.00+4.00+0.89=230.89	0.89	239.89
(d)	Per bullock cart	155.00+3.00+6.00+3.00+0.65=167.65	0.65	174.00
(iii)	<b>Unloading of Brick-</b>			
(a)	Per railways wagon	1033.00+21.00+41.00+21.00+4.00 =1120.00	4.00	1166.00
(b)	Per truck	499.00+10.00+20.00+10.00+2.00	2.00	563.00

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
		=541.00		
(c)	Per tyre cart	155.00+3.00+6.00+3.00+6.00=173.00	0.65	174.00
(d)	Per bullock cart	101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42	0.42	113.42
(iv)	<b><u>Loading &amp; Unloading of Stone chips &amp; Challi-</u></b>			
(a)	Loading per 100 cft-	130.00+3.00+5.00+3.00+5.00=141.54	0.54	146.54
(b)	Unloading per100cft-	89.00+2.00+4.00+2.00+0.37=97.37	0.37	101.37
(v)	<b><u>Loading &amp; Unloading of Ballast &amp; Bolders -</u></b>			
(a)	Loading per 100 cft-	123.00+2.00+5.00+2.00+0.51=132.51	0.51	137.51
(b)	Unloading per100cft-	89.00+2.00+4.00+2.00+0.37=97.37	0.37	101.37
(5)	Loading, Unloading of iron rods, G-sheet, Iron Pipes, humepipe, Machineries equipments and other hard wires:-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00Perday
(i)	<b><u>Loading-</u></b>			
(a)	Per railways wagon	1764.00+35.00+71.00+35.00+7.00 =1912.00	7.00	1983.00
(b)	Per truck	814.00+16.00+33.00+16.00+3.00 =882.00	3.00	915.00
(c)	Per tyre cart	237.00+5.00+9.00+5.00+1.00=257.00	1.00	266.00
(d)	Per bullock cart	200.00+4.00+8.00+4.00+1.00=217.00	1.00	225.00
(ii)	<b><u>Unloading</u></b>			
(a)	Per railways wagon	1190.00+24.00+48.00+24.00+5.00 =1291.00	5.00	1339.00
(b)	Per truck	601.00+12.00+24.00+12.00+3.00 =652.00	3.00	676.00
(c)	Per tyre cart	182.00+4.00+7.00+4.00+1.00=197.00	1.00	205.00
(d)	Per bullock cart	122.00+2.00+5.00+2.00+1.00+2.00 =132.00	1.00	137.00
(6)	<b>Loading and Unloading of coal.</b>	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00
(i)	<b><u>Loading-</u></b>			
(a)	Per railways wagon 4 wheel (Wagon of 22 tones capacity).	712.00+14.00+28.00+14.00+3.00 =771.00	3.00	799.00
(b)	Per truck 200 Cft-	443.00+9.00+18.00+9.00+2.00=481.00	2.00	499.00
(c)	Per tyre cart	122.00+2.00+5.00+2.00+1.00=132.00	1.00	137.00
(d)	Per bullock cart	101.00+2.00+4.00+2.00+0.42=109.42	0.42	113.42
(ii)	<b><u>Unloading</u></b>			

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
(a)	Per railways wagon (Wagon of 22 tones capacity)	483.00+10.00+19.00+10.00+2.00 =524.00	2.00	543.00
(b)	Per truck 200Cft-	279.00+6.00+11.00+6.00+1.00 =303.00	1.00	314.00
(c)	Per tyre cart	66.00+1.00+3.00+1.00+0.29=71.29	0.29	74.29
(d)	Per bullock cart	41.00+0.82+1.64+1.00+0.17=44.00	0.17	45.81
(7)	Loading and Unloading of lime and clay and earth etc-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00
<b>(i)</b>	<b>Loading</b>			
(a)	Per railways wagon (Wagon of 22 tones capacity)	557.00+11.00+22.00+11.00+2.00 =603.00	2.00	625.00
(b)	Per truck 200 Cft-	324.00+6.00+13.00+6.00+1.00=350.0 0	1.00	363.00
(c)	Per tyre cart	159.00+3.00+6.00+3.00+1.00=172.00	1.00	170.00
(d)	Per bullock cart	122.00+2.00+5.00+2.00+1.00=132.00	1.00	137.00
<b>(ii)</b>	<b>Unloading</b>			
(a)	Per railways wagon (4 wheel (Wagon of 22 tones capacity)	393.00+8.00+16.00+8.00+2.00=425.0 0	2.00	443.00
(b)	Per truck 200 Cft-	173.00+3.00+7.00+3.00+1.00=187.00	1.00	194.00
(c)	Per tyre cart	90.00+2.00+4.00+2.00+0.37=98.37	0.37	102.37
(d)	Per bullock cart	65.00+1.00+3.00+1.00+0.27=70.27	0.27	73.27
(8)	Loading and Unloading of cement per bag-	13.00+0.26+0.52+0.26+0.05=14.31	0.05	14.83
<b>6</b>	<b>Forestry and Timbering Operation-</b>			
	<b>General Work</b>			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+ 44.00=11361.00	44.00	11780.00 Per Month
	<b>Piece Work</b>			
(a)	Log cutter of various sizes falling demarking and stocking at loading sits at copies forest,	8.00+0.16+0.32+0.16+0.03=8.64	0.03	8.99

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
	pole-(4"x5") Per cubic meter.			
(b)	Conversion of tram line and fencing post per piece	11.00+0.22+0.44+0.22+0.04=12.26	0.04	12.70
(c)	Cutting conversion including Stacking at site of fire wood (size per cubic meter)	109.00+2.00+4.00+2.00+0.45=117.45	0.45	121.45
<b>(d)</b>	<b>Cutting and Collecting of bamboo(including siding ) Per 100 piece-</b>			
(i)	Loggas - Per 100 Pcs.	314.00+6.00+13.00+6.00+1.00=340.00	1.00	353.00
(ii)	Tonnas - Per 100 Pcs	252.00+5.00+10.00+5.00+1.00=273.00	1.00	283.00
(iii)	Sorahi - Per 100 Pcs	109.00+2.00+4.00+2.00+0.45=117.45	0.45	121.45
(iv)	Charcoal Manufactory per bag(35Kg)	79.00+2.00+3.00+2.00+0.33=86.33	0.33	89.33
(v)	Fidder Grass, or thatch grass or sewal grass (per k.g.)	79.00+2.00+3.00+2.00+0.33=86.33	0.33	89.33
(vi)	Sal seed & Bonhimia leaves collection (Per kg)	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=22.50	0.8	22.58
<b>7.</b>	<b>Silk Industry including Manufacturer from pure silk, artificial silk and other staple yarn-</b>			
	<b>General Work-</b>			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+ 44.00=11361.00	44.00	11780.00 Per Month
	<b>Piece Work-</b>			
(a)	Power loom weaver Per meter for plain cloth	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=22.50	0.08	22.58
	and per meter for Erimchek & other fine cloth	17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=19.04	0.07	19.11

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
(b)	Handloom Weaver Per meter for Plain cloth -	30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00	0.12	34.12
	Per Meter for erimchek	38.00+0.76+1.52+1.00+0.76=42.04	0.15	42.19
	Per Meter Tusser mulberry and munga cloth-	41.00+0.82+1.64+0.82+1.64=45.92	0.17	46.09
(c)	<b>Pin Wider</b>			
(i)	Power loom if prepared for cloth Per Kg- Hank	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=22.52	0.08	23.60
	prepared from care cloth	17.00+0.34+0.68+0.34+0.068=19.04	0.07	19.11
(ii)	Handloom per Kg	33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=37.30	0.13	37.43
(d)	<b>Bobbin Winder</b>			
(i)	Power loom Per kg if prepaired hand cloth-	17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=19.04	0.07	19.11
(ii)	Handloom per Kg	33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=37.30	0.13	37.43
(e)	<b>Cutting &amp; Shaping-</b>			
(i)	Stable per than of 12 meter- Silk	17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=19.04	0.07	19.11
8.	<b>Earth Cutting Operation----</b>			
(a)	For every 90 cubic ft- of soft earth-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00Perday
(b)	For every 75 cubic ft- of hard earth-	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00Perday
(c)	For every 60 cubic ft-of highly hard earth	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00Perday
<b>Note:- Decision of 15% less earth cutting for women worker, but will gate equal wage-</b>				
9.	<b>Tea Plantation -</b>			
	<b>General Work</b>			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00 +44.00=11361.00	44.00	11780.00 Per Month
<b>Piece Work</b>				
(a)	Plucker per plucking	17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=19.04	0.07	19.11

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
	of one Kg- of green Leaves			
(b)	Person engaged in hocking for preparing 40 nails in a land measuring 0-133 acre-	53.00+1.00+2.00+1.00+0.22=57.22	0.22	59.22
(c)	Person engaged in weeding and forking per 100 tea bush-	53.00+1.00+2.00+1.00+0.22=57.22	0.22	59.22
<b>10.</b>	<b>Lac Manufactory—</b>			
	<b>General Work-</b>			
1	Unskilled	366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00 = 11361.00	44.00	11780.00 Per Month
	<b>Piece Work</b>			
(a)	<u>Karigar</u> - for melting 40Kg- of seed lac--	221.00+4.00+9.00+4.00+1.00=239.00	1.00	248.00
(b)	<u>Belwaia</u> - for melting 40Kg- of seed lac-	190.00+4.00+8.00+4.00+1.00=207.00	1.00	215.00
(c)	<u>Pherwaia</u> - for melting 40Kg- of seed lac-	115.00+2.00+5.00+2.00+0.48=124.48	0.48	129.48
(d)	<u>Kamin &amp; Ghogiahin</u> - for washing & seperating 40Kg- of seed lac from bhushi, Mullama sand -	57.00+1.00+2.00+1.00+0.23=61.23	0.23	63.23
(e)	Karahia and RangKharhiya ghasander and Mazandar - for washing of 40 Kg of seed lac through washing Machine—	53.00+1.00+2.00+1.00+0.22=57.0.22	0.22	59.22

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
(f)	<b>Tailor ( Khalifa )</b>			
(i)	when using own machine-(per Bhatta)-	$31.00+0.62+1.24+1.00+1.24=35.10$	0.13	35.23
(ii)	when using employer chine- (per Bhatta)-	$17.00+0.34+0.68+0.34+0.68=19.04$	0.07	19.11
(g)	<u>Crusher</u> - per 40Kg- of Stick lac-	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.52=42.8$	0.15	42.95
(h)	<u>Breaker</u> - per 40 Kg-of stick lac-	$33.00+0.66+1.32+1.00+1.32=36.96$	0.13	37.09
<b>11.</b>	<b>Power loom Industry-</b>			
	<b>General Work-</b>			
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday
4	Highly Skilled	$566.00+11.00+23.00+11.00+2.00=613.00$	2.00	636.00 Perday
5	Clerical/ Supervisory	$10478.00+210.00+419.00+210.00=11361.00$	44.00	11780.00 Per Month
	<b>Piece Work</b>			
	pick	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	26	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	28	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	30	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	32	$21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52$	0.08	23.60
	34	$21.00+0.42+0.84+0.46+0.84=23.52$	0.08	23.60
	36	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	40	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	42	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	44	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	46	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	48	$30.00+0.60+1.20+1.00+1.20=34.00$	0.12	34.12
	50	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20=42.56$	0.15	42.71
	52	$38.00+0.76+1.52+1.00+1.20=42.56$	0.15	42.71
<b>12.</b>	<b>Plucking and Processing-Kendu leaves</b>			
	<b>General Work-</b>			
1	Unskilled	$366.00+7.00+15.00+7.00+2.00=397.00$	2.00	412.00 Perday
2	Semiskilled	$380.00+8.00+15.00+8.00+2.00=413.00$	2.00	428.00 Perday
3	Skilled	$463.00+9.00+19.00+9.00+2.00=502.00$	2.00	521.00 Perday

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022+ 01.10.2022+01.04.2023+ 01.10.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2024 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2024 Column (3+4)
1	2	3	4	5
		0		
4	Highly Skilled	566.00+11.00+23.00+11.00+2.00 =613.00	2.00	636.00 Perday
5	Clerical /Supervisory	10478.00+210.00+419.00+210.00+44 =11961.00	44.00	11780.00 Per Month
<b>Piece Work</b>				
(a)	Plucking of leaves per 50,000 leaves or 60 paise per 50 leaves-	1344.00+27.00+54.00+27.00+6.00 =1458.00	6.00	1512
(b)	Packing of Bags Per small bags-	21.00+0.42+0.84+0.42+0.84=23.52	0.08	23.60
	Per big bags-	41.00+0.82+1.64+1.00+1.64=46.10	0.17	46.27
(C)	Grading and bundling per bind of 5 Kg-	41.00+0.82+1.64+1.00+1.64= 46.10	0.17	46.27

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January - June, 2024** will be payable at the aforesaid rates from **1<sup>st</sup> October, 2024** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-18/2021 (Part) L&R-11)

By the order of the Governor of Bihar,

Rajeev Ranjan,  
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1099-571+100-डी0टी0पी0 ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>